

बिहार विधान परिषद

(195 Monsoon Session)

Short Notice Questions For Written Answers

04 August 2020

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

Total Short Notice Question- 3

कार्य योजना पर विचार

*1 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु सरकार के पास पर्याप्त संख्या में पी.पी.ई.कीट, वेंटिलेटर, आई.सी.यू. बेड, सर्जिकल मास्क तथा अन्य आवश्यक उपकरणों का अभाव रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की जांच अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम हो पा रही है। प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र 2197 लोगों की जांच हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु सरकार ने 'कोरोना उन्मूलन कोष' का गठन किया जिसमें संग्रहित धन का उपयोग प्रायः कम ही हो सका है;

(घ) क्या यह सही है कि इस अवधि में डाक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों ने जान जोखिम में डाल बेहतरीन काम किए, क्या ऐसे कर्मठ लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार कोई कदम उठाने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलायेगी कि अभी तक की अद्यतन स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग

कोरोना संक्रमण से बेहतर तरीके से निपटने के लिए भविष्य की कोई कार्य योजना पर विचार कर रहा है, यदि नहीं तो क्यों और हां तो क्या?

हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की व्यवस्था

*2 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनवरसा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भुतही एवं सिंहवाहिनी(जानकी नगर) के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हर तरह की आधुनिक चिकित्सीय सुविधा से लैस करने के पावन उद्देश्य से इन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का स्वरूप अगस्त, 2018 में प्रदान किया गया। यदि हां तो इन्हें अबतक हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित नहीं किये जाने का क्या औचित्य है?

पदस्थापित कब तक

*3 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना के एन.एम.सी.एच. में राज्य भर से तथा बड़े-बड़े अस्पतालों से कोरोना संक्रमित मरीज रेफर होकर भर्ती होते हैं, जिसके कारण बेड कम पड़ जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि कोरोना मरीजों के शवों को प्लास्टिक कवर करने से लेकर एंबुलेंस में चढ़ाने तक के लिए केवल एक स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत है, नतीजतन वार्ड में शव पड़ा रहता है और उससे बदबू निकलने लगती है, जिससे अन्य मरीजों में दहशत फैलता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन.एम.सी.एच. में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने, एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने तथा उचित संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को पदस्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?
